



### ब्रैम्पटन ट्रांज़िट की सवारियों को बसों, बस स्टॉप्स और टर्मिनल्स पर गैर-मेडिकल मास्क पहनने की सलाह दी गई

ब्रैम्पटन, ओन्टारियो (22 मई, 2020) – ओन्टारियो (Ontario) सरकार और रीजन ऑफ पील (Region of Peel) ने अब सलाह दी कि जो लोग पब्लिक ट्रांज़िट पर सफर करते हैं, वे सफर करते समय गैर-मेडिकल मास्क (कपड़े के बने साधारण मास्क) पहनें, जहां शारीरिक दूरी रखना मुश्किल हो सकता है। निवासियों और स्टाफ का स्वास्थ्य और सुरक्षा, सिटी के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। सवारियों को पुरज़ोर सलाह दी जाती है कि वे कोविड-19 (COVID-19) के कारण, ब्रैम्पटन ट्रांज़िट (Brampton Transit) की बसों पर और बस स्टॉप्स और टर्मिनल्स पर गैर-मेडिकल मास्क पहनें।

सवारियों को याद दिलाया जाता है कि वे टर्मिनल्स और बस स्टॉप्स पर होने के समय और बसों में चढ़ते समय, दूसरों से छह फुट (2 मीटर) दूर रहकर शारीरिक दूरी कायम रखें।

गैर-मेडिकल मास्कों संबंधी अधिक जानकारी के लिए, रीजन ऑफ पील की [वेबसाइट \(website\)](#) और ओन्टारियो सरकार की [वेबसाइट \(website\)](#) पर जाएं।

#### कोविड-19 से सुरक्षा संबंधी उपाय

अधिक बार सफाई और सैनिटाइज़ करने का शेड्यूल पहले की तरह ही प्रभावी रहेगा। हर 48 घंटों में सभी ठोस सतहों, ऑपरेटर कम्पार्टमेंट्स और सीटों को रोगाणु मुक्त करना, ब्रैम्पटन ट्रांज़िट का लक्ष्य है। इस समय अधिकतर बसों को हर 24 घंटों में सैनिटाइज़ किया जा रहा है। जिन फैसिलिटीज और टर्मिनल्स की ठोस सतहें हैं, उन्हें रोज़ाना पोंछा जा रहा है और सैनिटाइज़ किया जा रहा है। सवारियों को सलाह दी जाती है कि वे सफर करते समय हैंड सैनिटाइज़र या वाइप्स जैसे खुद के रोगाणु नाशक पदार्थ साथ में रखें और बार-बार अपने हाथ धोएं।

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन, जोखिमों का लगातार निरीक्षण करने के लिए पील पब्लिक हेल्थ (Peel Public Health) और ब्रैम्पटन एमरजेंसी मैनेजमेंट ऑफिस (Brampton Emergency Management Office) में अपने साझेदारों के साथ मिलकर काम कर रही है। नियमित अपडेट्स के लिए [www.brampton.ca/covid19](http://www.brampton.ca/covid19) पर जाएं और सेवा अपडेट्स के लिए [bramptontransit.com](http://bramptontransit.com) पर जाएं अथवा Twitter पर @bramptontransit को फॉलो करें। सवाल सीधे ब्रैम्पटन ट्रांज़िट के संपर्क केंद्र (Contact Centre) से 905.874.2999 पर पूछे जा सकते हैं।

#### हवाले

“सिटी में हमारे समुदाय का स्वास्थ्य और सुरक्षा हमारे लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। मैं ब्रैम्पटन ट्रांज़िट की सभी सवारियों से अनुरोध



करता हूँ कि वे ओनटैरियो सरकार और रीजन ऑफ पील की सलाह का पालन करें और बसों पर, बस स्टॉप्स और टर्मिनल्स पर गैर-मेडिकल मास्क पहनें। इकट्ठे मिलकर, हम लगातार कोविड-19 के फैलने का मुकाबला करना जारी रख सकते हैं।”

- पैट्रिक ब्राउन (Patrick Brown), मेयर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“सिटी ऑफ ब्रैम्पटन, ब्रैम्पटन ट्रांज़िट सवारियों के लिए सुरक्षित ट्रांज़िट सवारी और हमारे ट्रांज़िट ऑपरेटर्स के लिए एक सुरक्षित कार्यस्थल प्रदान करने के लिए समर्पित है। सवारियों से अनुरोध है कि वे, हमारे समुदाय के स्वास्थ्य और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए ओनटैरियो सरकार और रीजन ऑफ पील पब्लिक हेल्थ की सलाह का पालन करें।”

- डेविड बैरिंक (David Barrick), चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

-30-

#### मीडिया संपर्क

मोनिका दुग्गल (Monika Duggal)

कोऑर्डिनेटर, मीडिया एंड कम्युनिटी एन्गेजमेंट

स्ट्रैटजिक कम्युनिकेशन

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

905-874-3426 | [Monika.Duggal@brampton.ca](mailto:Monika.Duggal@brampton.ca)